HCL INFOSYSTEMS LTD.

Corporate Office: A-11, Sector 3, NOIDA 201 301, U.P., India
Tel: +91 120 2520977, 2526518, 2526519 Fax: +91 120 2523791
Registered Office: 806 Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019. India.
Corporate Identity Number - L72200DL1986PLC023955

www.hdinfosystems.in

www.hd.com

29th August, 2021

То

The General Manager

Department of Corporate Relations

BSE Limited

Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Fort

Mumbai 400 001

The Vice President

Listing Department

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai 400 051

Sub: Submission of newspaper advertisement under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Ref: NSE : HCL-INSYS

BSE (For Physical Form): 179 BSE (For Demat Form): 500179

Dear Sirs,

We enclose herewith copies of the newspaper advertisement confirming dispatch of the notice of Thirty Fifth Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, 22nd September, 2021 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Video Means (OAVM) facility and Information on Evoting and other related information, published in "Financial Express" in English and "Jansatta" in Hindi Edition on 29th August, 2021.

This is submitted for your information please.

Thanking you

For HCL Infosystems Limited

Komal Bathla Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure: As above

FE SUNDAY



POLY MEDICURE LIMITED

Regd Off: - 232-B, Third Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 CIN: L40300DL1995PLC066923 Tel: 011-33550700, Fax: 011-26321894 Email:- investorcare@polymedicure.com, Website: www.polymedicure.com

Notice of 26th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Poly Medicure Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Friday, the 24th September, 2021 at 10.00 a.m. to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Listing Regulations, read with circular No. 02/202' dated January 13, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circula No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2021 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 27th August, 2021.

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for F) 2020-21 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a duly signed request letter to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number Name of the shareholder, Email ID, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 alongwith letter mentioning folio no., if not registered already.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register you

email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH, if declare by Company Members who are holding shares in physical form or who have not registered their

email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 18th September, 2021 to Friday, 24th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annua General Meeting.

Notice is also hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal https://www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their vote: electronically. The remote e-voting period commences on Tuesday, 21st September 2021 (09:00 am) and ends on Thursday, 23rd September, 2021 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 17th September, 2021, may cast their vote by remote e-voting Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 17th September, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The attendance of the Members attending the AGN through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under

Shri Pawan Kumar Mishra, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 4305 & CP No. 16222), Proprietor M/s. P. K. Mishra & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. Deepanshu Rastogi, Asst. Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83 or Shr Avinash Chandra, Company Secretary and Compliance Officer, Poly Medicure Limited 232-B, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020; Phone: 011 33550700, Fax: 011-26321894, Email: cs@polymedicure.com

The above information is being issued for the information and benefit of all the member of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued from time to time.

for Poly Medicure Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Avinash Chandra

Place: New Delhi

Date: 28th August, 2021

DHANVARSHA FINVEST LIMITED

Regd. Office: 2" Floor, Building No. 4, D J House Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai 400 069 CIN: L24231MH1994PLC334457 www.dfltd.ir

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO

CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS, BOOK CLOSURE AND REMOTE E

VOTING INFORMATION. Notice is hereby given that the 27" Annual General Meeting ("AGM") of Dhanvarshi Finvest Limited (the 'Company') will be held on Monday, September 20, 2021 at 11.00 a.m., through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circulars dated April 8 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and January 15 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), to

The Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 on Saturday, August 28, 2021, electronically to those members whose e-mail IDs were registered with the Depository Participants and the Company or its Registrar & Share Transfer Agent i.e. M/s. MCS Share Transfer Agent Limited. The Notice of the AGM and the Annual Report for Financial Year 2020-21 is also available on the Company's website at www.dfltd.in and can also be accessed on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and that of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at www.cdslindia.com. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circulars and hence no physical copies of the Annual Report will

transact the business set out in the Notice of AGM.

Members can attend AGM through VC/ OAVM facility on live streaming link made available by CDSL at https://www.evotingindia.com by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVSN for the Company. The procedure for joining the AGM through VC/ OAVM facility and to raise questions during AGM have been spelt out in the Notice of AGM dated August 13, 2021.

Notice pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations and Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Monday, September 13, 2021 to Monday, September 20, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the 27th AGM of the Company.

Voting through electronic mode: In accordance with the applicable provisions of the Act read with rules framed thereunder, Secretarial Standard on General Meeting and Listing Regulations, members are provided with a facility to cast their vote on all the resolutions set forth in the AGM notice, using electronic voting system from the place other than the Venue of AGM ('remote e-voting') as well as e-voting at the AGM. The Company has engaged the services of CDSL to provide the facility for remote e-voting as well as e-voting during the AGM through CDSL e-voting system at

The detailed instructions for remote e-Voting and e-voting at AGM are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

- . The members, whose name appear in the Register of the Member / the Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off date i.e. Monday, September 13, 2021 will be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM. The business as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means only
- The remote e-voting shall commence on Friday, September 17, 2021 at 09.00 a.m. and end on Sunday, September 19, 2021 at 05:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the votes on resolutions is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently.
- . The facility of e-voting shall also be made available during the AGM and the Members attending the AGM, who have not already cast their vote by remote evoting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM electronically, but shall not be entitled to vote at the AGM.
- The persons who have become the Member of the Company after circulation of the Notice and Annual Report and their names appear in the Register of Members/list of Beneficial owners as on the cut-off date should follow the instructions given in the Notice of the AGM available on the Company's website a www.dfltd.in to obtain the Notice of AGM and the login id and password for casting vote electronically. However, if a person is already registered with CDSL for evoting, then existing User ID and Password can be used to cast vote.
- A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purpose only.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For Dhanvarsha Finvest Limited

Mr. Fredrick M. Pinto Company Secretary

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

CIN: L72200DL1986PLC023955

Regd. Office: 806, Siddhartha, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019 Corporate Office: A-11, Sector – 3, Noida, 201301 (U.P) Tel: +91-120-2520977, 2526518/519, Fax: +91 120 2523791 Email: cosec@hcl.com, Website: www.hclinfosystems.in

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

This is in continuation to our earlier communication dated 24" August, 2021, whereby the members of HCL Infosystems Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Board of Directors of the Company has decided to convene the 35th AGM of the Company on Wednesday, 22nd September, 2021 at 10:00 AM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") facility, to transact the businesses as set out in the

The notice of 35th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2021 along with the login details for joining the 35th AGM through VC/ OAVM facility including e-voting has been sent on 28th August, 2021 through e-mail to all those members whose e-mail addresses were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants (DPs) in accordance with the MCA and SEBI Circulars SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021, and the same are also available on the Company's website www.hclinfosystems.in and stock exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com and on the website of the RTA i.e. www.alankit.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard -2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting and e-voting services, provided by NSDL on all resolutions set forth in the Notice of the 35th AGM. AGM has been convened in compliance applicable provisions of the Act read with MCA

The remote e-voting shall commence on Sunday, 19th September, 2021 (09:00 AM) IST and end on Tuesday, 21st September, 2021 (05:00 PM) IST. During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said

The Members who have casted their votes by remote e-voting may also join the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM.

Once the Members cast vote on a resolution, the Members shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice of 35th AGM.

Mr. Vineet K. Chaudhary, partner of VKC & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No. F5327), failing him, Mr. Mohit K Dixit, Practicing Company Secretary (Membership No. A49021) have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner. The Company has received consent for such appointment.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity Shares held by them in

the paid-up equity Share capital of the Company as on Wednesday, 15th September, 2021 ("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as on cut-off date should treat his Notice for information purpose only. Any person, who acquire Shares and become member of the Company after the date of

electronic dispatch of the Notice of 35th AGM and holding Shares as on the cut off date, may obtain the Login ID and password by following the instructions as mentioned in the Notice of 35th AGM or sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for e-voting, then he/she can use his/ her existing user ID and password to cast their vote.

If you have not registered your e-mail address with the Company/ DP, you may please follow the below instructions for obtaining the login details for e-voting:

Physical | Please send a request to Alankit Assignments Limited, Registrar and Share Transfer Agent to the Company at info@alankit.com or contact the Company at cosec@hcl.com providing their name, folio no, scanned copy of share certificates (Front and Back), self-attested scanned copy of PAN card and Aadhar Card in support for registering their e-mail addresses.

Holding account, as per the process advised by your DPs. Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 17th September,

Please contact your DPs and register your e-mail address in your demat

2021 to Wednesday, 22nd September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM of the Company The result of voting will be declared within two working days from the conclusion of the AGM i.e., on or before 24th September, 2021 and results so declared along with the consolidated scrutinizer's report will be placed on the Company's website

also be immediately forwarded to the BSE Limited and NSE, Mumbai. In case of any clarification(s)/grievance(s) connected with the e-voting, please visit Help & Frequently Asked Questions (FAQs) - Shareholders and e voting user manual Shareholders, available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Soni Singh Assistant Manager Email id – evoting@nsdl.co.in Contact Number 1800 102 0990; 1800 22 4430.

(www.hclinfosystems.in) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com). The results shall

For and on behalf of **HCL Infosystems Limited**

Place: Noida Date: 28.08.2021

Komal Bathla Company Secretary and Compliance Officer

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) (A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.) CIN No. L40101HP1988GOI008409

PUBLIC NOTICE - 33RD ANNUAL GENERAL MEETING In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of SJVN Limited ('Company') will be held through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') on Wednesday September 29, 2021 at 03:00 PM (IST) to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM ('Notice')

In accordance with the MCA and SEBI Circulars, the Annual Report (including Notice, Boards Report and Annual Financial Statement for the FY 2020-21) will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with the Company/ Depositary Participants (DPs). The Notice and Annual Reports will also be available on the website of the Company at www.sjvn.nic.in, on the website of Alankit Assignments Limited, Company's RTA, at www.alankit.com and on the websites of the stock exchanges i.e, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Further, members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Accordingly please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM in person. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining and manner

of participating in the AGM will be provided in the Notice. Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their e-mail addresses with their relevant DPs. Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the notice or by writing to Alankit Assignments Limited, Company's RTA, at rameshk1@alankit.com or to the Company at investor.relations@sjvn.nic.in along with the following documents:

- a) Scanned copy of signed request letter mentioning their name and address.
- b) Scanned copy of the share certificate (front and back); c) Self-attested scanned copy of PAN card; and
- d) Self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar

card, Driving License, Passport) in support of their address. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized form) and with Company's RTA (where shares are held in physical form) to receive the dividend directly into their bank account.

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will also provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting/e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA and SEBI Circulars. For SJVN Limited

Date: 29.08.2021 Place: Shimla

Soumendra Das Company Secretary

Regd. Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla - 171006 (HP) Tel: 0177-2660070, Email: cs.sjvn@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

D.S.KULKARNI DEVELOPERS LIMITED

Under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) CIN: L45201PN1991PLC063340

Website: dskcirp.com Email ID: ip.dskdl@gmail.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

In continuation of our newspaper notice published on August 25, 2021, notice is hereby given that that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of D S Kulkarni Developers Limited (Under Corporate Insolvency Resolution Process Insolvency under Insolvency and Bankruptcy Code-2016) ("the Company") respectively is scheduled on Tuesday, September 21, 2021 at 3.00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by National Securities Depository Ltd ('NSDL') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, Dated January 15, 2021 (referred to as

In accordance with the aforesaid MCA and SEBI circulars, the Annual Report for the F.Y.2020-2021, including AGM Notice, has been sent through electronic mode only on August 28, 2021 to those members whose email id's are registered with Company or its Registrar and Transfer Agent or the Depositories. The Annual Report for the Financials Year 2020-2021, including the AGM Notice is also available on the company's website www.dskcirp.com, and on BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com and on the website of the National Depository Services Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. Members are requested to register their email ID's with Registrar & Transfer Agent

e. Link Intime India Private Limited by sending the request at pune@linkintime.co.in or mt.helpdesk@linkintime.co.in if shares are held by them in physical form or with their respective DPs if shares are held by them in demai form. Members who have not registered their email IDs may send an email request to pune@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in along with the following documents for obtaining Annual Report, AGM Notice with e-voting instructions and ogin credentials: (a) In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name, scanned copy of PAN Card and any address proof; (b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-Client ID (8digit DPID +8 digit client ID or 16 digit beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested, scanned copy of PAN card and any address proof.

Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standards-2 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ('SEBI Listing Regulations') and general circulars issued by MCA and SEBI, the business can be transacted through voting by electronic means. The Company has engaged the services of National Depository Services (India) Limited ('NDSL') for providing the remote e-voting platform and for participating in the AGM through VC/OVAM and voting thereat. The detailed instructions for remote e-voting are given in the notice of the AGM. Members are requested to note the following: Remote e-voting shall commence on Saturday, September 18, 2021 from

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

09.00 A.M. (1ST) and end on Monday, September 20, 2020 at 5.00 P.M. (1ST Remote e-voting shall not be allowed beyond September 20, 2020 at 5.00 P.M. (1ST). The facility for e-voting shall be made available at the AGM and members attending the same through VC/OVAM who have not cast their votes by remotevoting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

 The cut-off date for determining eligibility of members for voting on the business set out in the AGM notice is September 14, 2021. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting or e-voting at the AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and is holding shares as on the cut-off date may obtain login credentials by sending a request at evoting@nsdl.co.in or following the procedure as mentioned in the AGM Notice.

 c) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 14. 2021 to Tuesday, September 21, 2021 (both the days inclusive).

> For D S Kulkarni Developers Limited (Company under Corporate Insolvency Resolution Process)

Date: August 29, 2021 Place: Pune

Mr. Manoj Kumar Agarwal Resolution Professional IBBI/IPA-001/IP-P00714/2017-2018/11222



The Indian EXPRESS For the Indian Intelligent

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru - 570 018, Karnataka

NOTICE RE LOSS OF SHARE CERTIFICATE NOTICE is hereby given that following share certificate of the Company has been lost/misplaced and the hareholder of the said certificate has applied to the Company to issue duplicate certificate. The Compar has informed the holder that the said shares have been transferred to IEPF as per IEPF Rules. ny person who has a claim in respect of the said certificate should lodge their claim with the Company at s Registered Office within 15 days from this date; else the Company will proceed to release nev ertificate to the holder, without further information.

No. of Shares | Cert No. | Distinctive No.(s) | Folio No. Name of Joint Holders SHARDA DEVI & RAJNISH AGARWAL 50 6397 | 68437376-6847425 | 6247 LUCKNOW 28.08.2021 RAJNISH AGRAWAL

> PANKAJ PIYUSH TRADE AND INVESTMENT LIMITED CIN NO.: L65990DL1982PLC256291

Registered Office: 314, 3rd Floor, Opposite Plot No. 39, R. G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 Email: infopptinvestment@gmail.com, Website: www.pptinvestment.in

Phone- 011-42804171, 9891442777 NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING

PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of Pankaj Piyush Trade & Investment Limited will be held on Thursday, 23th day of September, 2021 at 09:00 A.M. at 314, 3rd Floor Opposite Plot No. 39, R.G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085 to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2020-21on

August 27, 2021 through electronic mode to the members whose email

addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual

Report for Financial Year 2020-21 is available and can be downloaded

from the Company's website www.pptinvestment.in. In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, 16th September, 2021 ("Cut-off date").

The remote E-Voting period commences on Monday, 20th September 2021 (10:00 am) and ends on Wednesday, 22nd September, 2021 5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day.

Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 17th September, 2021 to Thursday, 23th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 39th AGM of

Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. 16th September, 2021 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz infopptinvestment@gmail.com, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL viz www.evotingindia.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM. Members are also informed that in case you have any gueries or issues

regarding e-voting, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help s or write an email to helpdesk.evotingindia@cdslindia.com or contact Mr Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543 or Mr. Ravi Dalvi (022-23058542) or 1800225533. All grievances connected with the facility for e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A wing 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013 or send an email to nelpdesk.evotingindia@cdslindia.com or call 1800225533/022-23058542/43 By the Order of the Board of Directors For Pankaj Piyush Trade & Investment Limited

Place: New Delhi Kanika Arora

Date: 27th August, 2021 Company Secretary

"IMPORTANT

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



GFL LIMITED

through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

(CIN: L24110GJ1987PLC009362) Registered office: Survey No 16/3, 26 & 27, Village Ranjitnagar, Taluka Ghoghamba, District Panchmahal, Gujarat - 389380 Telephone: +91 1123354795 Website: www.gfllimited.co.in Email id: secretarial@inoxmovies.com

INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER **AUDIO VISUAL MEANS** NOTICE is hereby given that the 34th AGM of the Members of GFL Limited ("Company") is scheduled to be held on Tuesday, 28th September, 2021 at

12.00 noon (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Businesses, as set out in the Notice of the

AGM. In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020 and 02/2021 dated 13th January, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May,

2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 ('SEBI Circulars'), have permitted the holding of the AGM

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) read with rules made there under, as amended from time to time, read with MCA Circulars, SEBI Circulars and pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended, the AGM of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 28th September, 2021, at 12:00 noon (IST) through VC/OAVM.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent only by electronic mode to all the Members of the Company whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the 34th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will also be uploaded on the website of the Company i.e. www.gfllimited.co.in under 'Investor Relations' section and the websites of Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com and also on the website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since the AGM is being held by VC / OAVM.

In order to receive the Notice and Annual Report, Members are requested to register/ update their e-mail address with their Depository Participant(s),

in case they have not already registered/ updated the same. Members who are holding shares in physical form are requested to get their email

address registered with the Registrar and Share Transfer Agents (RTA) by sending email at vadodara@linktime.co.in. Process for temporarily registering e-mail addresses to receive Notice for the AGM electronically and cast votes electronically

(in case email id is not registered): A. For Members holding shares in Physical form – Kindly provide necessary details like Folio No., Name of Member, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to Company at secretarial@inoxmovies.com / RTA at vadodara@linktime.co.in

B. For Members holding shares in Demat form –Kindly provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attest attested scanned copy of AADHAR Card) to Company at secretarial@inoxmovies.com / RTA at vadodara@linktime.co.in.

Manner of casting vote through e-Voting:

The Company is providing remote e-Voting facility to all its Members through the e-Voting platform of CDSL in respect of all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-Voting system during the AGM. The login credentials for casting the votes through e-Voting will be sent on the registered email id of the Members. The detailed procedure of casting the votes through e-Voting is also provided in the Notice of the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date should follow the same procedure of e-Voting as mentioned in the AGM Notice.

Members who exercise their right through remote e-Voting may participate in the AGM but shall not be allowed to vote at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 21st September, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.

In case you have any grievances connected with e-Voting, please refer the e-Voting manual/ Frequency Asked Question ("FAQs") available at

www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact the undersigned. This Notice is issued for the information and benefits of the Shareholders of the Company in compliance with the applicable MCA Circulars.

> By order of Board of Directors For GFL Limited

> > Sd/-**Bhavi Shah**

Company Secretary bhavi.shah@inoxmovies.com

Phone:+91 1123354795 Address: Survey No 16/3, 26 & 27 Village Ranjitnagar, Taluka

Place: Vadodara **Date**: 28th August, 2021

New Delhi

Ghoghamba, District Panchmahal, Gujarat - 389380

financialexp.epap

Place: Mumbai

Date: August 28, 2021

ACS No.- 22085

कोवैक्सीन के एक टीके से दो खुराक का फायदा

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

मुंबई, 28 अगस्त (भाषा)।

पक्षद्रोही करार दिया है।

पालघर, 28 अगस्त (भाषा)।

कर चुके हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के एक अध्ययन के अनुसार अगर भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन की एक खुराक किसी ऐसे व्यक्ति को दी गई जो पहले कोरोना से संक्रमित हुआ था तो वह दो खुराक जितनी ही प्रतिरक्षा (एंटीबॉडी) हासिल कर लेता है। यह अध्ययन शनिवार को 'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च' में प्रकाशित हुआ।

महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 के विस्फोट

मामले में एक अहम गवाह के महाराष्ट्र एटीएस

के समक्ष दिए गए अपने बयान से मुकर जाने

के बाद यहां विशेष एनआइए अदालत ने उसे

महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में 17 वर्षीय

अनाथ लड़की से कथित सामृहिक बलात्कार के मामले

में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। एक

अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने

बताया कि आरोपी इस वारदात से पहले भी नवंबर,

2020 से इस साल अगस्त के बीच कई मौकों पर पीड़ित

लडकी का कथित रूप से अलग-अलग यौन उत्पीडन

लड़की की मां परिवार को छोड़ कर चली गई थी,

जिसके बाद नाबालिंग अपने पिता के साथ किराए के घर

में रहने लगी थी। पिछले साल नवंबर में पिता की भी

मौत के बाद मकान मालिक ने लडकी को कमरा खाली

उत्तर प्रदेश अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले

विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के गाजीपुर से सांसद

अफजाल अंसारी और मऊ सदर के विधायक मुख्तार

अंसारी के सगे भाई व पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी

शनिवार को बसपा छोड़कर अपने समर्थकों संग सपा में

शामिल हो गए। वहीं, पहले ही बसपा छोड़ चुके पूर्व

मंत्री अंबिका चौधरी ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण कर

ली है। वहीं, भाजपा ने सिबगतुल्ला के सपा में शामिल

होने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त देते हुए कहा कि 'यही है

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अंबिका चौधरी, पूर्व

विधायक सिबगतुल्ला अंसारी और उनके समर्थकों की

पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि उनके आने से

सपा की ताकत और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे यह

संदेश जाएगा कि आने वाले समय में बहुमत की सरकार

सपा बनाएगी। भाजपा पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख

ने कहा कि नौजवानों के लिए नौकरी व रोजगार नहीं है,

व्यापारी बर्बाद हो गये। कोरोना के नाम पर जो मदद

सरकार को करनी चाहिए थी और जब सबसे ज्यादा

मदद की जरूरत थी तब गरीब जनता को भाजपा

पंकज पीयुष ट्रेंड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

CIN No: L65990DL1982PLC256291

पंजीकृत कार्यालय : 314, 3रा तल, प्लॉट नं. 39 के सामने, आर.जी. माल,

सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

ईमेल : info@pptinvestment.com, वेबसाईट : www.pptinvestment.in

फोन : 011-42804171, 9891442777

39वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं पुस्तक

बंद होने की सुचना

एतद्वारा सचित किया जाता है कि पंकज पीयष टेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड के सदस्यों की

39वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 23 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में 314, 3

तल, प्लॉट नं. 39 के सामने, आरजी मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेग

जो एजीएम के आमंत्रण के लिये सर्क्युलेट की जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक

रिमोर्ट के साथ कम्पनी ने एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में 27 अगस्त, 2021 कं

ऐसे सदस्यों को भेज दी है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। विग

वर्ष 2020–21 के वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.pptinvestment.in प

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 सहित (इस

समय में लागू उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनरीक्षिण सहित), एमसीए द्वारा निर्दिष्ट

दिशा निर्देशों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में सदस्यों को

सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (ई-वोटिंग) का उपयोग

करते हुए एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई

जा रही है। सदस्यों के मतदान का अधिकार गुरुवार, 16 सितम्बर, 2021 (''कट-ऑफ

तिथि'') को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 (9.00 बजे पुर्वा.) में शुरु होगी तथा

बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। इस अवधि में सदस्य

इलेक्टॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-

वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली अथवा मत पत्र

द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने पहले रिमोट ई-वोटिंग

द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते

एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज किसी भी कार्य

दिवस को व्यवसाय अवधि के दौरान निरीक्षण के लिये कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में

सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, २०१५ के विनियमन ४२ तथा कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर

अंतरण पस्तकें शक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 से गरुवार, 23 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस

यदि कोई सदस्य एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनते हैं तथा कम्पनी का शेयर

धारित करते हैं तथा जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2021 को डिपॉजिटरीज

द्वारा प्रबंधित कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभ भोगी स्वामित्व के विवरण में शामिल

हों, वे कम्पनी की वेबसाईट अर्थातु info@pptinvestment.com स्टॉक एक्सचैंज की

वेबसाईट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट

www.evotingindia.com पर एजीएम की आमंत्रण सचना देख सकते हैं। ऐसे सदस्य

एजीएम की सूचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार क

सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि यदि ई-वोटिंग से सम्बन्धित विषय पर आपकी

कोई जिज्ञासा हो तो आप हेल्प खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध

Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा

helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ईमेल करें या श्री नितिन कुण्डेर

(022-23058738) से श्री महबूब लखानी से (022-23058543) पर श्री रवि डाल्वी से

(022-23058542) पर अथवा 1800225533 पर सम्पर्क करें। ई-वोटिंग से संबंधित सभी

समस्याऐं श्री राकेश डाल्बी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया)

लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी

मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 को संबोधित की जा सकती है अथवा

helpdeskevotingindia@cdslindia.com को ईमेल भेजें अथवा

हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

सहित) तक कम्पनी की 39वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

प्रयोग कर सकते हैं।

सपा मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के अध्यक्ष और

सपा का असली चेहरा।

सरकार ने अनाथ छोड़ दिया।

पुलिस उपायुक्त (रेलवे) प्रदीप जाधव ने बताया कि

(एटीएस) जब इस मामले की जांच कर रहा

था तब गवाह ने उसे बताया था कि 2008 में

इसमें कहा गया है, 'व्यापक आबादी के बीच किए गए अध्ययनों में हमारे प्रारंभिक निष्कर्षों की पष्टि यदि की जाती है, तो पहले से सार्स-सीओवी-2 से संक्रमित व्यक्तियों को बीबीवी152 टीके की एक ख़ुराक की सिफारिश की जा सकती है ताकि अधिक लोग सीमित टीका आपर्ति का लाभ उठा

भारत का पहला पहली स्वदेशी कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन, जिसका कूटनाम बीबीवी 152 है, को जनवरी में आपातकालीन

मालेगांव मामला : पुरोहित के खिलाफ बयान देने वाला गवाह मुकरा

उसने एक 'साहसिक कार्य शिविर' (एडवेंचर

कैंप) में हिस्सा लिया था जहां भारत में

आतंकवाद के प्रसार तथा माद्रक द्रव्यों और

जाली मुद्रा के जरिए देश को कमजोर करने में

कि मामले के सात आरोपियों में से एक

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने इस आयोजन

में एक व्याख्यान दिया था। गवाह ने कहा कि

यद्यपि इसे 'साहसिक कार्य शिविर' कहा गया

करने को कहा था, जिसके बाद वह वसई में फटपाथ

पर रहने लगी। उन्होंने बताया, 'तीन अगस्त को पुलिस

की एक टीम ने लड़की को वसई रेलवे स्टेशन इलाके में भटकते हुए पाया। जब उससे पूछा गया कि वह कहां

से है तो उसने कुछ नहीं बताया और वह खौफ में दिख

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीआइएसएस) और

कछ गैर सरकारी संगठनों की मदद ली। डीसीपी ने

बताया कि किशोरी को चिकित्सकीय जांच के लिए भेजा

गया, जिसमें उसके साथ यौन उत्पीडन की बात सामने

आई। पुलिस ने जानकारी जुटाकर तीन आरोपियों के

खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और

यौन अपराध से बाल संरक्षण कानून (पॉक्सो) की

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया

पुलिस ने इसके बाद उससे बातचीत के लिए टाटा

महाराष्ट्रः नाबालिग लड़की से सामृहिक

बलात्कार, तीन गिरफ्तार

रही थी।

उस समय अपने बयान में गवाह ने कहा था

पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा हुई थी।

उपयोग के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसकी दो खुराक चार से छह सप्ताह के अंतराल के साथ दी जाती हैं।

सार्स-सीओवी-2 विशिष्ट एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को जांचने के लिए अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों में यह अध्ययन किया गया। इसमें एंटीबॉडी प्रतिक्रिया की तुलना उन व्यक्तियों के साथ की गई जिनमें संक्रमण की पृष्टि नहीं हुई थी। अध्ययन में फरवरी से मई 2021 तक चेन्नई में टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन प्राप्त करने वाले 114

था लेकिन वहां ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया

था। शनिवार को हालांकि अदालत के समक्ष

अपनी गवाही दर्ज कराते हुए गवाह ने ऐसा

कोई बयान दिए जाने से इनकार किया जिसके

बाद विशेष न्यायाधीश पी आर शित्रे ने उसे

पक्षद्रोही घोषित किया। विशेष लोक

अभियोजक अविनाश रसाल ने कहा कि अब

तक 188 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है

और वह बयान से मुकरने वाला दूसरा गवाह

स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से रक्त के नमने एकत्र किए गए

अध्ययन में कहा गया है, 'कुल मिला कर सार्स-सीओवी-2 से पहले संक्रमित हुए उन लोगों में एंटीबॉडी की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली जिन्होंने बीबीवी152 की पहली ख़ुराक ली थी और वह उन लोगों में मिली एंटीबॉडी के बराबर ही थी जिन्होंने दोनों खुराक ली थी और वे पहले इस विषाणु से संक्रमित नहीं हुए थे।'

रायपुर, २८ अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ के रायपुर जिले की एक अदालत ने ढाई वर्षीय बच्ची की हत्या के जुर्म में महिला को आजीवन कारावास की सजा सनाई है। रायपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शनिवार को बताया कि जिले की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत ने नम्रता निराला की हत्या के जुर्म में गंगा

मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

प्लान तैयार किये जाने हेतू कंसल्टैन्ट के चयन के लिए ई-निविदा

आमन्त्रित की जाती है। निर्विदा सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्ते मेरठ

विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in एवं https://etender.up.nic.in पर दिनांक 29.08.2021 से उपलब्ध

होगी। सम्बन्धित कंसल्टैन्ट द्वारा ई-निविदा आमन्त्रण सूचना में

दर्शायी गयी तिथि से आर.एफ.पी. डाउनलोड किया जा संकता है

एवं आर.एफ.पी. में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ई-निविदा

से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे। उक्त से सम्बन्धित

परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनायें उक्त साईट पर देखी जा

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा मेरठ नगर हेतु सिटी डेवलपमेंट

बंजारे (33) को आजीवन कारावास नम्रता और एक अन्य बालिका की सजा सुनाई है। अधिवक्ताओं ने निमिता (4) के अपहरण और हत्या

हत्या के जुर्म में महिला को आजीवन कारावास बताया कि अदालत ने महिला को के प्रयास का भी दोषी पाया है।

> टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ांजीकृत कार्यालय : 1 1वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुम्बई - 400013. CIN No.U67190MH2008PLC187552

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) संपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(याँ) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।

चूंकि ऋणी(याँ) ने अदायगी में बुटि की है अत: ऋणी(याँ) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दीं जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) संपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है ।

ऋणी(याँ) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियाँ के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऋणी(याँ) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा

उका उपधारा	(८) क उपबंधा का आर आकृष्ट किया जाता है।		
ऋण	बाध्यताधारीयों /कानूनी	मांग सूचना के	कब्जा
बाता क्रं.	वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	अनुसार राशि	दिनांक
0322663	श्री अनिल कुमार मिश्रा (ऋणी) एवं	रु. 21,99,289/-	24-08-2021
	श्रीमती साधना मिश्रा (सह-ऋणी)	04.05.2021 तक	(भौतिक)

सुरक्षित आस्तियों /अचल संपत्तियों का विवरण : आईटम नं. 1: खसरा नं. 19 के प्लाट के भाग पर निर्मित मकान नं. ए- 18 के शेष एवं संपूर्ण भाग, ग्राम बाघमउ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010.

69.702 वर्गमीटर का क्षेत्रफल। दिनांक: 24.08.2021 स्थान : लखनऊ

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. युआरसी-2 अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सुचना देने के लिये विज्ञापन

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिये प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र में रजिस्ट्रार के पास इस सचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि मै. बेस्ट डॉयग्नोस्टिक्स एलएलपी (एलएलपी) को शेयर्स द्वारा मै. बेस्ट डॉयग्नोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी

पनर्वास केन्द्र, डायलैसिस सेन्टर्स, कर्डियोग्राफी तथा सोनोग्राफी सेन्टर्स, फिजियोथैरेपी सेन्टर्स तथा मेडिसीन तथा सर्जरी, नर्सरी होम्स, हॉस्पीटल्स, ऑपरेशन थिएटर्स, क्लीनिक्स, पॉलीक्लीनिक्स, एक्स-रे एवं ईसीजी क्लीनिक्स, पोलिओ क्लीनिक्स, क्लीनिकल एवं पैथोलॉजिकल टेस्टिंग लैबोरेटरीज, रिसर्च लैबोरेटरीज की सभी शाखाओं तथा प्रणालियों में साधारण, विशिष्ट तथा आधुनिक चिकित्सा उपचारों का प्रावधान करने वाले सभी प्रकार के केन्द्रों की स्थापना, निर्माण, रचना, बिल्ड, संगठन, प्रबंधन, उपक्रम, प्रोत्साहन, विकास, अंगीकार, अधिग्रहण, क्रय, सुधार, सुसज्जित, प्रबंधन, प्रचालन करने, लीज पर लेने तथा स्वयं संचालित करने, सभी फार्मास्युटिकल्स इग्स, सर्जिकल एवं मेडिकल उपकरणों का निर्माण तथा बिक्री करने तथा भारत एवं विश्व में चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के

 प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय खसरा नं. 776, भूतल, ग्राम बुराड़ी, नई दिल्ली-110084 में एलएलपी के पंजी. कार्यालय में

4. एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपित्त हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपित केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगाँव (हरियाणा),

पदनामित पार्टनर DIN No. 08694737

लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की 2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: डायग्नोस्टिक सेन्टर्स, स्कैन सेन्टर्स, रिसर्च सेन्टर्स, हेल्थ सेन्टर्स,

पिन कोड-122050 में रजिस्टार के पास जमा करें।

आज, दिनांक 26 अगस्त, 2021 को।

अक्षय अलावादी पदनामित पार्टनर

मितेश भल्ला

हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, मैजिनाइन फ्लोर, एम-4 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-।।. नई दिल्ली-110049, निगमित कार्यालयः सी-1, सैक्टर-3, नोएडा-201301 ई-मेलः info@newhabitat.in, वेदः www.newhabitat.in, मो.: +91-9999694526, फोन: 0120-4180500 एक्सटेंशन:1102 ई-नीलामी बिक्री सूचना

Advt. No.: 22/MDA/21-22

सकती हैं।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई—नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) "जैसा है जहां है आधार और जैसा है जो कुछ भी है" आधार पर की जाएगी।

क. सं.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई—नीलामी की तिथि व समयः समयः 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	श्री प्रशांत शर्मा और श्रीमती पूजा शर्मा ऋण खाता संHSG/N/ HEA/NOI/0916/0018	संपत्ति सं. टीएफ-03 (तृतीय तल), बिना छत अधिकार के, प्लॉट सं. 13, खसरा सं. 13 मीन यदु टॉवर, महरौली विरंजीय विहार के पास, एनएच 24 का पश्चिमी भाग, परगना डासना, तहसील आँर जिला गाजियाबाद-201003 (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	₹. 24,75,000.00 ₹. 2,47,500.00 ₹. 25,000.00	15/09/2021 पूर्वी 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 32,36,493.00 दिनांक : 28/08/21
2.	श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नितिका जैन और श्रीमती संतोष जैन ऋण खाता सं- NHS/N/ HEA/NOI/0117/0007	मकान सं. 385, खसरा सं. 3136/2568/704 में सं, महारथी कॉलोनी, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली—110032, एरिया 1076 वर्ग फुट लगभग (भौतिक कब्जा के अंतर्गत)	₹. 24,00,000.00 ₹. 2,40,000.00 ₹. 25,000/-	15/09/2021 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 53,74,203.00 दिनांक : 28/08/21

ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 14-09-2021 का अप. 4.00 बजे तक संपत्तियों की निरिक्षण की तिथि व समय : 07-09-2021 को पूर्वा.11.00 से अर्पा. to 4.00 के बीच अन्य जानकारी हेत् समपर्क करें : श्री रवि कमार (प्राधिकृत अधिकारी) - 9999694526

ई-नीलामी की नियम एवं शर्ते: यह नीलागी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता गैसर्स ई-प्रोक्योरगेंट टैक्नोलोंजी लि. Auction Tiger (सम्पर्कः 6351896834, 079-68136855/854,079-61200594/558 के माध्यम से वेबपोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर ऑनलाईन "जैसा है जहां है आधार और राशियों के संबंध रवतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए ई— नीलामी विज्ञापन एनबीएफसी / एवएफसी की किसी भी प्रकार कं प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। संपत्ति की बिकी नबीएफसी / एचएफसी को जात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारों / ऋणभारों के साथ की जा रहीहै । प्राधिकत अधिकारी / प्रतिभृत लेनदार किसी ततीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 3. भावी बोलीदाता धरोहर राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/स्थानांतरण के रुप में खाता संख्या 36728174634, लामार्थी न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम पर, भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई शाखा, सैक्टर–18, नोएडा, यू.पी., आई एफ एस सी कोड : SBIN0004077 में जमा करें। 4. यह ई–नीलामी वित्ती गरिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पूर्नीनर्माण और प्रतिभृत हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 के अन्तर्गत निर्घारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी। 5. सफ बोदलदाता को बिक्री पर विचार हेतु रखा जाएगा। और उसी को बिक्री मूल्य के लिए समायोजित किया जाएगा और असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दें जाएगी । ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं होगा । ६. सफल बोलीदाता बिकी का 25% प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी सहित) उसी दिन जमा करना होगा । उसके 🗸 उनके पर र्ग बिकी की तारीख से 15 दिनों के शीतर बोली राशि का 75% प्रतिशत राशि का जमा करना होगा | 7. निर्धारित समय के भीतर सफल बोलीदाता 🗸 नीलामी खरीदा द्वारा राशि के भगतान में डिफॉल्ट के मामले में, बिक्री को रह कर दिया जाएगा और पहले से भगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति फेर से बिकी के लिए डाल दी जाएगी और डिफॉल्ट हो जाएगी संपत्ति / राशि के संबंध में बोली लगाने वाले का कोई दावा / अधिकार नहीं होगा। 8. प्राधिक अधिकारी / NHHFDL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का या सभी प्रस्तावों की इं–नीलामी व स्थगित / रह या बिना किसी कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से किसी भी संपत्ति को वापस करने का पूर्ण अधिकार रखता है। 🤋 प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 10, ई नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है https://sarfaesi.auctiontiger.net और www.newhabitat.in

प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड थिः 29/08/2021, स्थान : नोएडा

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 दूरभाष : +91 11 41204444, फैक्स : +91 11 41204000, ई-मेल : dmi@dmihousingfinance.in, U65923DL2011PTC216373

श्री जकी अहमद पुत्र श्री **बाबर अली**, प्लॉट नं. एमएम-110, फ्लैट नं. जीएफ-4, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, सामने बंसल स्टोर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, भारत। साथ ही : फ्लैट सं. एस-1, द्वितीय तल, प्लॉट सं. ए-61, खसरा नं. 38, एसएलएफ वेद विहार, तहसील-लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, भारत। साथ ही : 700/24, गली नं. 27, विजय पार्क, मौजपुर, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110053

श्रीमती नफीसा बेगम पत्नी श्री जकी अहमद, प्लॉट नं. एमएम-110, फ्लैट नं. जीएफ-4, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, सामने बंसल स्टोर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, भारत। साथ ही : फ्लैट सं. एस-1, द्वितीय तल, प्लॉट सं. ए-61, खसरा नं. 38, एसएलएफ वेद विहार, तहसील-लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, भारत। साथ ही : 700/24, गली नं. 27, विजय पार्क, मौजपुर, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110053.

विषय : वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत विधिक सूचना अधोहस्ताक्षरी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कम्पनी मैसर्स डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (इसके पश्चात ''डीएमआई एचएफसी सन्दर्भित), कार्यालय का पता : एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 (इसके पश्चात ''डीएमआई एचएफसी'' सन्दर्भित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाम एतद्वार निम्नलिखित सचना जारी करता है :

1. कि ''डीएमआई एचएफसी'' कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी है जो गृह ऋण स्वीकृत करने सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रावधानित

. कि आप सम्बोधितियों ने **रु. 24,24,173⁄- (रुपये चौबीस लाख चौबीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र**) की राशि हेतु ऋण ग्रहण करने के लिए''डीएमआइ एचएफसी'' से सम्पर्क किया था। ऋण की स्वीकृति हेतु आपका निवेदन ऋण अनुबन्ध सं. HFC0003753455/ ऋण आवेदन सं. GG1125680 (कथित ऋण अनुबन्ध) दिनांक 31 अगस्त, 2018 को उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर विचारित किया गया था। आप दोनों ने कर्जदारों के रूप में उसमें निहित नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में कथित ऋण अनुबन्ध दिनांक 31 अगस्त, 2018 पर हस्ताक्षर किया था। बाद में कथित ऋण अनुबन्ध के नियम एव शर्तों की स्वीकृति के बाद आपने एचएफसी द्वारा स्वीकृत कथित ऋण सविधा के परिप्रेक्ष्य में अन्य दस्तावेज दिये थे। आपने स्वामित्व विलेखों को जमा कर के बंधक द्वारा निम्नलिखित सम्पत्ति की प्रतिभूति के विरुद्ध कथित ऋण सुविधा ग्रहण की है :

फ्लैट सं. एस–1, द्वितीय तल, प्लॉट सं. ए–61, खसरा नं. 38, एसएलएफ वेद विहार, तहसील–लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010, भारत (इसके पश्चात ''कथित सम्पत्ति'' तथा/अथवा ''अनुसूचित सम्पत्ति'' सन्दर्भित) जो यहाँ अनुसूची में भी अधिक विस्तृत रूप से वर्णित है।

3. कि आप सम्बोधितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त ऋणों की मूल राशि, ब्याज एवं उसके तहत देय अन्य समस्त धन का भुगतान करने की स्वीकृति सहित इस ऋणदाता के साथ सुविधा अनुबन्ध के तहत वर्णित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार किया था।

4. कि इस प्रकार आपने ''डीएमआई एचएफसी'' के पक्ष में अनुसूचित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभृति हित सुजित किया और अनुसूचित सम्पत्ति ''डीएमआइ एचएफसी'' की प्रतिभृति आस्ति हो गयी।

5. कि आपके अनुरोध के आधार पर ''डीएमआई एचएफसी'' ने रु. 24,24,173/- (रुपये चौबीस लाख चौबीस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) प्रदान किया। 6. कि आपने कथित ऋण अनुबन्ध तथा आपके द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों में निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के

माध्यम से कथित ऋण के पुनर्भुगतान हेत् एक अंडरटेकिंग देकर कथित ऋण ग्रहण किया। 7. कि, आपने ने ''डीएफआई एचएफसी'' को आपके द्वारा देय समान मासिक किस्त (ईएमआई) के भुगतान में चूक की है।''डीएफआई एचएफसी'' द्वारा बार-

बार निवेदन तथा फॉलो-अप के बावजूद आप अपने द्वारा क्रियान्वित ऋण अनुबन्ध में निर्धारित के अनुसार ईएमआई के भुगतान में असफल रहे और इसर्क अवहेलना की। आप कर्जदार वित्तीय अनुशासन/दायित्वों को बनाये रखने में असफल रहे और आपने यहाँ नीचे वर्णित सुविधाओं के तहत बकाया राशियों के समयबद्ध पुनर्भुगतान में चुक की।

3. कि आपकी ओर से किये गये उपर्युक्त एवं अन्य चुकों के अनुसार, ऋण अनुबन्ध के अनुच्छेद 7 में परिभाषित के अनुसार चूक की घटनाएँ हैं। ऋण अनुबन्ध सं. HFC0003753455/ ऋण आवेदन सं. GG1125680 के प्रावधानों के अनुसार चूक की घटनाओं के कारण आपको दिये गये सम्पूर्ण ऋण का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सह रिकॉल सुचना दिनांक 24 मई, 2021 के माध्यम से ''डीएमआई एचएफसी'' द्वारा आपके ऋण को रिकॉल किया गया था। कथित मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 24 मई, 2021 के तहत आपको वास्तविक भुगतान की तिथि तक आगे के प्रभारों तथा ब्याज सहित 31 मार्च, 2021 तक आरोपित ब्याज, अन्य बकायों तथा प्रभारों सहित कुल बकाया राशि रु. 26,69,464/- (रुपये छब्बीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ चौंसठ मात्र) का पुनर्भुगतान करने को कहा गया था। कथित मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 24 मई, 2021 को आपके पास विधिवत सर्व किया गया था। कि आपने मांग सह रिकॉल सूचना दिनांक 24 मई, 2021 में उल्लिखित कथित देयों/बकाया दायित्वों का पुनर्भुगतान करने की जानबूझकर अनदेखी की।

9. कि इसके अलावा, चंकि ऋण अनबन्ध के तहत आपके द्वारा देय राशि 90 दिनों से अधिक बकाया हो गयी है अतः आपको ऋण खाते को ''डीएमआई एचएफसी'' द्वारा 15 **फरवरी**. 2021 को ''गैर-निष्पादित आस्ति'' के रूप में वर्गीकत कर दिया गया है। 10. कि 30 जुन, 2021 तक ''डीएमआई एचएफसी'' का आपकी ओर बकाया दायित्व देयताएँ **रु. 27,59,083**/- (**रुपये सत्ताईस लाख उनसठ ह**जा

तिरासी मात्र) हैं जिसमें 30 जून, 2021 तक आरोपित ब्याज, अन्य बकाये तथा प्रभार शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि आप 30 जून, 2021 से सम्पूर्ण बकाय दायित्व के पुनर्भुगतान की तिथि तक प्रतिस्थापित ब्याज, आकरिमक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों के साथ अनुबन्धात्मक दर पर आगे के ब्याज का भुगतान 11. अतः एतद्वारा ''डीएमआई एचएफसी'' आपको इस सुचना की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर ''डीएमआई एचएफसी'' के प्रति यह सुचना जारी करके

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण एवं प्रतिभित्त हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (तथा उसके भावी संशोधनों) की धारा 13(2) के तहत संयक्त रूप से तथा/अथवा अलग-अलग आपको अपने उपर्युक्त दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने के लिए कहता है। 12. कृपया ध्यान दें कि यदि आप इस सुचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर 30 जुन, 2021 से पुनर्भगतान की तिथि तक आगे के ब्याज

प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों सहित आपके द्वारा देय उस पर ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित उपर्युक्त राशि रु. 27,59,083/ **(रुपये सत्ताईस लाख उनसठ हजार तिरासी मात्र)** का संयुक्त रूप से तथा/अथवा अलग-अलग ''डीएमआई एचएफसी'' को पुनर्भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ''डीएमआई एचएफसी'' वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत प्रावधानित समस्त या किसी अधिकार प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा जिसमें आपकी लागत तथा जोखिम पर अनुसुचित सम्पत्ति पर कब्जा लेना तथा उसकी बिक्री शामिल है। उपर्यक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनसार, आपको यह भी सचित किया जाता है कि यदि प्रतिभत आस्तिये के परिसमापन की कार्यवाही ''डीएमआई एचएफसी'' के बकायों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो हम उपयुक्त विधिक कार्यवाही करके शेष बकायों की वसली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

13. आपको यह सूचना भी दी जाती है कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के सन्दर्भ में, आप ''डीएमआई एचएफसी'' की पूर्व लिखित अनुमति के बिन अनुसुचित सम्पत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा विधि से अन्तरण नहीं करेंगे। सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करना सरफैसी अधिनियम की धारा 29 के तहत एवं दण्डनीय अपराध है। 14. यह सुचना बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी की गयी है और किसी अन्य अधिकारों तथा उपचारों के छूट के रूप में नहीं मानी जायेगी जिसे आपके द्वारा ''डीएमआई

एचएफसी'' को राशि की भावी मांग तथा देय सिंहत ''डीएमआई एचएफसी'' के पास हो सकती है।

15. इस मामले से सम्बन्धित समस्त पत्राचार अधिकृत प्राधिकारी, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 3सरा तल, 9–10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को सम्बोधित किये जाने चाहिए।

अनुसूची (कथित सम्पत्ति का विवरण)

फ्लैट सं. एस-1, द्वितीय तल, प्लॉट सं. ए-61, खसरा नं. 38, एसएलएफ वेद विहार, तहसील-लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, भारत। कृते एवं हिते डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्रा.लि., अधिकृत प्राधिकारी

अंबिका चौधरी व सिबगतुल्ला मेरठ में दिनदहाडे गोली मार जैसा है जो कुछ भी है" के आधार पर संचालित की जायेगी। नीतीश झा— 07982880393 प्रधान कार्यालय संपर्क व्यक्ति राम शर्मा = 8000023297. अंसारी सपा में शामिल कर पार्षद की हत्या 6351896834 ਪ੍ਰਬਿਧ ਸਾਲ – 6351896834, ईਸੇਲ ਪਹਾ -pushpit@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, DIN No. 08694736 nclt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. ऑनलाईन नीलामी बिकी के अंतर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणपत्र, समान्य नियम व शर ादि निविदा वस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://sarfaesi.auctiontiger.net 2. अद्योहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनसार संपत्ति एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड मेरट(उप्र), 28 अगस्त (भाषा)। कोई प्रभार नहीं है। यथापि इच्छक बोलीदाताओं को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकार लखनऊ, 28 अगस्त (भाषा)

मेरठ शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र में शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने पार्षद और एआइएमआइएम नेता की गोली मार कर हत्या कर दी। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक (नगर) विनीत भटनागर ने

बताया कि नौचंदी थाना क्षेत्र के ढबाई नगर निवासी जुबैर(40) वार्ड संख्या 80 से एआइएमआइएम के पार्षद थे। जुबैर का एक मकान संतोष नसिंग होम के पास भी बताया गया। जहां से वह शनिवार सुबह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना को बाइक सवार हमलावरों ने अंजाम दिया। जुबैर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भटनागर ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि संपत्ति विवाद की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया।

लीड फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 101, सीताराम, मैंशन, 718/01, जीबी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

वेबसाईटः www.leadfinancialservices.in, ईमेल:lead financial@rediffmail.com फोन: 011-23549822-23,

CIN No: L74140DL1993PLC053485 सदस्यों के लिये सूचना ादुद्वारा सूचित किया जाता है कि:

कम्पनी की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को 11.30 पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 तथा लागू होने वाले सभी कानूनों तथा सर्क्युलर्स के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'') /अन्य ऑडियो बिजअल माध्यमी (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें साधारण वार्षिक सभा (एजीएम) की सूचना तिथि 21 अगस्त, 2021 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित

उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति 27 अगस्त, 2021 को या पूर्व ऐसे सर्भ शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपेन्ट्स के

कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग के माध्यम से 28वीं वार्षिक साधारण सभा की सुचना वर्णित व्यावसायिक मदों को निष्पादित करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सविध उपलब्ध कराई है। सदस्यगण सभा के किसी अन्यत्र स्थान से इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी तथा सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग स्वीकृत नहीं होगी।

यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, मै. बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस (पी) लिमिटेड से यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिय एजीएम की सूचना में दी गई है जो कम्पनी की वेबसाईट www.leadfinancialservices.in तथा स्टॉक एक्सचैंज, बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

क) सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की स्वीकृति नहीं होगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं दी जायेगी।

सदस्यगण कपया ध्यान रखें किः

ख) ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बाद भी सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे। ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग नहीं किये हों, वे ई-वोटिंग द्वारा वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) में मतदान कर सकते हैं।

सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग सविधा प्राप्त करने के लिये अधिकत होंगे। ङ) सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में सीडीएसएल/एनएसडीएल में डिमैट पद्धत्ति मे प्रतिभृति धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिये ई-वोटिंग तथा वर्च्युअल

घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 14 सितम्बर, 2021 को

बैठकों में शामिल होने के लिये लागिन पद्धत्ति एजीएम की सुचना में दी गई है। ्ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में या बाद में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को सदस्यों की जानकारी के अलावे स्टॉक एक्सचैंजों की सचनार्थ कम्पनी की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

सुचना तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.leadfinancialservices.in अर्थात् तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी प्रकाशित है। यदि एजीएम में शामिल होने तथा ई-वोटिंग से संबंधित आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो तो आप www.evotingindia.com के सहायता खंड में Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें 022-23058738 या (022-23058542)

या 022-23058543 से सम्पर्क करें। पुनः एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथ सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्ये के रजिस्टर वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 रे

हस्ता

कम्पनी सचि

मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सिहत) तक बंद रहेंगे। लीड फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये स्थानः नर्ड दिल्ली

कणिका अरोडा कम्पनी सचिव

निदेशक मंडल के आदेश से

पंकज पीयूष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिये

तिथि: 28.08.2021

पंजीकृत कार्यालयः 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 कॉरपोरेट कार्यालयः ए-11, सैक्टर-3, नोएडा, 201301 (यू.पी)

दूरभाषः +91-120-2520977, 2526518/519, फैक्सः +91 120 2523791 ई-मेलः cosec@hcl.com वेबसाइटः www.hclinfosystems.in 35वीं वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग एवं बुक क्लोज्र की सूचना

CIN: L72200DL1986PLC023955

यह सूचना हमारी पूर्व सूचना दिनांक 24 अगस्त, 2021 के क्रम में है, जिसके द्वारा एचसीएल इन्फोसिस्ट लिमिटेंड ("कम्पनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियमावली"] के साथ पठित कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कूलर नंबर 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 तथा 02 / 2021 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 क्रमानुसार ("एमसीए सर्कूलर्स") के अनुपालन में, कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी की 35वीं एजीएम का आयोजन, एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु, बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") सूविधा के माध्यम से करने का निर्णय किया है।

एमसीए तथा सेबी सर्कूलर्स सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 ए सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी 2021 क्रमानुसार के अनुसरण में 35वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतू कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, वीसी / ओएवीएम सुविधा, जिसमें ई—वोटिंग शामिल है, के माध्यम से 35वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण के साथ 28 अगस्त, 2021 को ई—मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार ऐंड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (डीपी'ज) के पास पंजीबद्ध थे तथा जो कम्पनी की वेबसाइट www.hclinfosystems.in तथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर और नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और आरटीए की वेबसाइट www.alankit.com पर भी उपलब्ध होगी।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पिटत कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, समय समय पर संशोधित, नियम तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम ४४, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक —2 और एमसीए सर्कूलर्स के अनुसरण में, सदस्यों को 35वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग तथा ई—वोटिंग सर्विसेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने की सुविधा की व्यवस्था की गई है। एजीएम का आयोजन अधिनियम के लागू प्रावधानों के साथ पठित एमसीए सर्कूलर्स के अनुपालन में किया जा रहा है।

रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 19 सितम्बर, 2021 को (पूर्वा. 09.00 बज) आईएसटी आरंभ होगी तथा मंगलवार 21 सितम्बर, 2021 को (अप. 05.00 बजे) आईएसटी समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरांत, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

जो सदस्य अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से पुनः अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उस सदस्य को बाद में उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई—वोटिंग, एजीएम से जुड़ने और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग हेतु विस्तृत अनुदेश 35वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

कम्पनी द्वारा श्री विनीत के. चौधरी, वीकेसी ऐंड एसोसिएट्स के पार्टनर, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता सं एफ5327), और उनकी अनुपस्थिति में, श्री मोहित के. दीक्षित, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सदस्यता सं. ए49021) को सम्पूर्ण ई—वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एवं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त

किया गया है। कम्पनी को इस नियुक्ति हेतु सहमति प्राप्त हो चुकी है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में उनके द्वारा बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 ("कट—ऑफ तिथि") को धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज मौजूद होगा, केवल वह व्यक्ति एजीएम से जुड़ने, रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त

करने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसको यह सूचना केवल

जानकारी के निमित्त समझनी चाहिए। कोई व्यक्ति. जो कि 35वीं एजीएम की सचना इलेक्टॉनिक विधि से प्रेषित की जाने के उपरान्त शेयरों का अर्जन करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और जो कि कट—ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है. वह 35वीं एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेशों का पालन कर अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि वह ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीबद्ध है तो वह अपननी वर्तमान लॉगइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए कर

यदि आपने अपना ई—मेल पता कम्पनी / डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, तो आप कृपया ई—वोटिंग के

लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने हेत् निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें: भौतिक अपना ई-मेल पता पंजीकत करवाने के लिए कपया कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को info@alankit.com पर एक अनुरोध पत्र, उसमें अपना नाम. फोलियो नंबर का उल्लेख करें तथा शेयर प्रमाणपत्रों की स्कैन प्रति (फ्रंट और बैक),

पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व–सत्यापित प्रति भेजें अथवा कम्पनी से cosec@hcl.com पर सम्पर्क करें। कपया अपने डीपी'ज से सम्पर्क करें तथा अपने डीमैट खाते में अपना ई–मेल पता, अपने

डीपी'ज द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार, पंजीकृत करवाएं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (एलओडीआ विनियमावली के विनियम 42 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार

17 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 तक (दोनों तिथियां शामिल हैं) कम्पनी की 35वीं एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्यदिवस के भीतर अर्थात 24 सितम्बर, 2021 को अथवा पूर्व घोषित किया जाएगा तथा इन घोषित परिणामों के साथ संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट

www.hclinfosystems.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ये परिणाम बीएसई लिमिटेड तथा एनएसई, मुंबई को भी अग्रसरित किए जाएंगे। ई—वोटिंग के संबंध में किसी स्पष्टीकरण (णों) / शिकायत (तों) की स्थिति में, कृपया www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड सेक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध हेल्प ऐण्ड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्य'ज) – शेयरधारक तथा

ई–वोटिंग यूजर मैनुअल – शेयरधारक, देखें अथवा सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक से ई–मेल आईडी – evoting@nsdl.co.in कॉन्टैक्ट नंबर : 1800 102 0990; 1800 22 4430 पर सम्पर्क करें। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के लिए व उन्हीं की ओर से

हस्ता / – कोमल बाथला

तिथिः 28.08.2021 कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा

www.readwhere.com

1800225533/022-23058542/43 पर कॉल करें।

तिथि : 27 अगस्त, 2021

स्थान : नई दिल्ली